



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1983/चैत्र 5, 1905  
No. 144] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1983/CHAITRA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1983

का.आ. 221(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के अनुरोध पर 26 मार्च, 1983 से उत्तर प्रदेश राज्य में नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय बैंक की स्थापना करती है जोकि उत्तर प्रदेश राज्य के नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1(33)/82-आर.आर.बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th March, 1983

S.O. 221(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks

Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government on being requested so to do by Bank of Baroda, establishes with effect from the 26th March, 1983 a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts of Nainital and Almora in the State of Uttar Pradesh.

[No. F. 1(33)/82-RRB(I)]

का.आ. 222(अ) —प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राथमिक बैंक आफ बड़ौदा से परामर्श करके, नैनीताल को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1(33)/82-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 222(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda by which Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank has been sponsored specifies Nainital as the place where Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank shall have its head office

[No. F. 1(33)/82-RRB(II)]

का. आ. 223(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त एनखंड के प्रयोजनों के लिए, नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1(33)/82-आर.आर.बी. (3)]  
वी. के. दीक्षित, संयुक्त सचिव

Kshetriya Gramin Bank, Nainital and specifies the period commencing on the 26th March, 1983 and ending with the 31st March, 1986 as the period of which the said Shri D. M. Jani shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1(33)/82-RRB(IV)]  
RAAM BEHRA, Under Secy.

### भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)

### अधिसूचना

बम्बई, 26 मार्च, 1983

का.आ. 225(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निवेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)

[आर.पी.सी.डी. संख्या 253/आई.एन.सी.एल./311/83]

एच. बी. शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

### RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Department)

### NOTIFICATION

Bombay, the 26th March, 1983

S.O. 225(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank, Nainital (U.P.).”

[RPCD. No. 253/INCL/311/83]

K. B. SHIVAMAGGI, Executive Director

S.O. 223(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank, Nainital being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1(33)/82-RRB(III)]  
V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

का.आ. 224(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री डी. एम. जानी को नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 26-3-1983 से प्रारम्भ होकर 31-3-1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री डी. एम. जानी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1(33)/82-आर.आर.बी. (4)]  
राम बेहरा, अवर सचिव

S.O. 224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri D. M. Jani as Chairman of the Nainital Almora